

प्रेस नोट दिनांक 05-11-2021

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा सट्टा पर्चा लिखते हुये टॉप-10 अपराधी को सट्टा की पर्चियां, सट्टे के 22,990/- रुपये नगद व नाजायज चाकू सहित किया

गिरफ्तार:-

अवगत करना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री हरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चैकिंग के दौरान कार्यवाही करते हुए दिनांक 04.11.2021को रात्रि 20:10 बजे न्यू आवास विकास कालोनी चौकी क्षेत्र हसनपुर से एक अभियुक्त को सट्टा पर्चा लिखते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक चाकू नाजायज व सट्टे की पर्चियां व सट्टे के 22,990/- रुपये नगद बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सदर बाजार क्षेत्र का टॉप-10 अपराधी है। थाना सदर बाजार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 534/21 धारा 13 जुआ/सट्टा अधि0 व मु0अ0सं0 535/21 धारा 4/25 A ACT पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-हरजीत सिंह पुत्र हरचरण सिंह निवासी प्रेमनगर बडौदा बैंक वाली गली थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1-सट्टे की पर्चियां व सट्टे के 22,990 रुपये नगद।

2-एक अदद चाकू नाजायज।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 597/10 धारा 4/25 आमर्स एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर

2-मु0अ0सं0 273/16 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर

3-मु0अ0सं0 505/17 धारा 63 आबकारी एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर

4-मु0अ0सं0 607/17 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सदर बाजार स0पुर

5-मु0अ0सं0 91/18 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर

6-मु0अ0सं0 74/19 धारा 380/427/504/506 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर

7-मु0अ0सं0 509/19 धारा 147/447/448/327/506/354 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर

8-मु0अ0सं0 158/20 धारा 2/3 गैंग स्टर एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर

9-मु0अ0सं0 534/21 धारा 13 जी एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर

10-मु0अ0सं0 535/21 धारा 4/25 आमर्स एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1-उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना सदर बाजार, स0पुर

2-उ0नि0 श्री सुभाष चन्द थाना सदर बाजार, स0पुर

3-का0 2074 कपिल थाना सदर बाजार, स0पुर

4-का0 727 जितेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार, स0पुर

5-का0 804 शहजाद थाना सदर बाजार, स0पुर

प्रेस नोट दिनांक 05-11-2021

कोतवाली नगर पुलिस व क्राईम ब्रान्च की संयुक्त टीम द्वारा गैंग बनाकर फर्जी कागजात तैयार करके बैंक से धोखाधड़ी कर लोन के रूपये हडपने की घटना का सफल अनावरण करते हुये 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी रबड स्टैम्प, फर्जी मोबाईल सिम, मोबाईल फोन,

एटीएम कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 04/11/21 को अभि0गण 1-साकिब फारूखी पुत्र जाहिद हुसैन निवासी मिगलानी बिल्डिंग सन्त पैलेस के सामने अशोक नगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर 2-मौहम्मद नवाज पुत्र गुलजार अहमद निवासी कम्बो का पुल लकखी गेट थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा अभि0 3-गुलफाम उर्फ शानू पुत्र इरशाद अहमद निवासी मौ0 सब्जी मण्डी कस्बा व थाना पुरकाजी थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर के मुकेश नाम से फर्जी आईडी व पहचान पत्रों के आधार पर फर्जी जमीन के कागजात तैयार कर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जोगियान पुल से 20 लाख रूपये का लोन लेकर हडप कर लिये गये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 210/21 धारा 420/467/468/471/406/120B भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुये अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु थाना कोतवाली नगर पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच टीम को भी लगाया गया।

जिसके क्रम में दिनांक 04/11/2021 को पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर के मार्ग निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस व क्राईम ब्रान्च की संयुक्त टीम द्वारा गहन पतारसी सुरागरसी कर मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभि0गण 1-साकिब फारूखी पुत्र जाहिद हुसैन निवासी मिगलानी बिल्डिंग सन्त पैलेस के सामने अशोक नगर थाना कुतुबशेर, सहारनपुर 2-मौहम्मद नवाज पुत्र गुलजार अहमद निवासी कम्बो का पुल लकखी गेट थाना मण्डी, सहारनपुर 3-गुलफाम उर्फ शानू पुत्र इरशाद अहमद निवासी मौ0 सब्जी मण्डी कस्बा व थाना पुरकाजी थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर को गुरुद्वारा रोड से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से फर्जी रबड स्टैम्प, फर्जी मोबाईल सिम, मोबाईल फोन, एटीएम कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता: -

- 1-साकिब फारूखी पुत्र जाहिद हुसैन निवासी मिगलानी बिल्डिंग सन्त पैलेस के सामने अशोक नगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
- 2-मौहम्मद नवाज पुत्र गुलजार अहमद निवासी कम्बो का पुल लकखी गेट थाना मण्डी, सहारनपुर।
- 3-गुलफाम उर्फ शानू पुत्र इरशाद अहमद निवासी मौ0 सब्जी मण्डी कस्बा व थाना पुरकाजी थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-फर्जी रबड स्टैम्प- 07 अदद
- 2-स्टैम्प पैड- 02 अदद
- 3-फर्जी मोबाईल सिम- 01 अदद
- 4-मोबाईल फोन- 04 अदद
- 5-एटीएम कार्ड – 01 अदद (मुकेश कुमार के नाम का)
- 6-ड्राईविंग लाईसेंस – 01 अदद

गिरफ्तार करने वाली टीम: -

- 1-उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली नगर स0पुर
- 2-उ0नि0 अय्यूब अली थाना कोतवाली नगर स0पुर
- 3- उ0नि0 अजब सिंह प्रभारी क्राईम ब्रान्च टीम स0पुर
- 4- उ0नि0 जयवीर सिंह क्राईम ब्रान्च स0पुर
- 5-उ0नि0 अजय प्रसाद गौड क्राईम ब्रान्च स0पुर
- 6- का0 2080 श्रवण कुमार थाना कोतवाली नगर स0पुर
- 7- का0 902 राहुल थाना कोतवाली नगर स0पुर
- 8- समस्त क्राईम ब्रान्च टीम स0पुर